

प्रेस नोट दिनांक 08.09.2021

थाना सिरौली जनपद बरेली ।

**थाना सिरौली #bareillypolice द्वारा तीन अभियुक्तों सहित एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से 07 किलो 200 ग्राम अफीम(अन्तरराष्ट्रीय कीमत करीब 75 लाख रुपये) व अफीम बिक्री के 1.75.000 रुपये व एक मोटरसाइकिल बरामद ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली द्वारा जनपद बरेली में संदिग्ध व्यक्ति / संदिग्ध वाहन की चैकिंग के चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी आंवला महोदय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सिरौली के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08/09/2021 को उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह मय उ0नि0 श्री सीताराम यादव मय हमराही फोर्स के मय जीप सरकारी मय का0 चालक के कस्वा सिरौली पेट्रोल पम्प के सामने रोड पर चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में मामूर थे कि मुखविर खास द्वारा सूचना मिली कि अंजनी तिराहा ढाल पर तीन व्यक्ति व एक महिला अफीम की खरीद व विक्री कर रहे हैं जल्दी की जाय तो पकड़े जा सकते हैं मुखविर की इस सूचना पर उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह ने मय फोर्स के दविश देकर आवश्यक बल प्रयोग कर ग्राम अंजनी तिराहा पर तीन व्यक्ति व एक महिला को पकड़ लिया । पकड़े गये अभियुक्तों 1.छत्रपाल पुत्र शंकरलाल नि0 ग्राम ढकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली 2.सूरजपाल पुत्र मेवाराम नि0 ग्राम ढकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली 3.दिनेश पुत्र मक्खनलाल नि0 ग्राम अंजनी थाना सिरौली बरेली 4.श्रीमति रामा देवी पत्नी दिनेश नि0 ग्राम अंजनी थाना सिरौली बरेली की जामा तलाशी से क्रमशः 03 किलो 550 ग्राम अफीम व 550 ग्राम अफीम व 2 किलो 550 ग्राम अफीम व 550 ग्राम अफीम (काला पदार्थ) बरामद हुआ ।अभियुक्तों ने बताया कि हम अफीम झारखण्ड से लाते हैं अधिक मुनाफा कमाने के लिये यहाँ अफीम को पंजाब ,हरियाणा आदि राज्यों में बेच देते हैं । जिसकी अन्तरराष्ट्रीय कीमत करीब 75 लाख रुपये है । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 258/2021 व 259/2021 व 260/2021 व 261/2021 धारा 8/18/29 NDPS Act में पंजीकृत किए गए ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

- 1.छत्रपाल पुत्र शंकरलाल नि0 ग्राम ढकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली ।
- 2.सूरजपाल पुत्र मेवाराम नि0 ग्राम ढकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली ।
- 3.दिनेश पुत्र मक्खनलाल नि0 ग्राम अंजनी थाना सिरौली बरेली ।
- 4.श्रीमति रामा देवी पत्नी दिनेश नि0 ग्राम अंजनी थाना सिरौली बरेली ।

**बरामदगी का विवरण:-** कुल 07 किलो 200 ग्राम अफीम व अफीम बिक्री के 1,75,000 रुपये व एक मोटरसाइकिल बरामद

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1.एसआई श्री अशोक कुमार थाना सिरौली जनपद बरेली ।
- 2.एसआई श्री सीताराम यादव थाना सिरौली जनपद बरेली ।
- 3.है0का0 103 विनोद कुमार थाना सिरौली जनपद बरेली ।
4. है0का0 696 महेश चन्द थाना सिरौली जनपद बरेली ।
5. है0का0 930 धीर सिंह थाना सिरौली जनपद बरेली ।
6. का0 369 अंकित सिंह थाना सिरौली जनपद बरेली ।
7. का0 586 अंकित सिंह थाना सिरौली जनपद बरेली ।
8. का0 508 मो0 उमर थाना सिरौली जनपद बरेली ।
9. का0 3052 आशीष मलिक थाना सिरौली जनपद बरेली ।
10. का0 3050 अक्षय कुमार थाना सिरौली जनपद बरेली ।
11. का0 2086 वीरेन्द्र सिंह थाना सिरौली जनपद बरेली ।
12. का0 2098 मौ0 इकवाल थाना सिरौली जनपद बरेली ।
13. म0का0 633 पूनम शर्मा थाना सिरौली जनपद बरेली ।
14. म0का0 2708 सीता थाना सिरौली जनपद बरेली ।